

गौ तस्करी के आरोप में अवैध तमंचा के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराध तथा अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक उत्तरी के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज के कुशल पर्यवेक्षण आज दिनांक 12.07.2021 को मैं थानाध्यक्ष सहजनवा मय हमराही कर्मचारीगण के घघसरा मोड़ पर मौजूद था कि मुखबिर खास आकर सूचना दिया कि कुछ लोग चिगौना बगीचा में विद्यालय के पीछे गोवंश को इकट्ठा कर बांधे हुए हैं जो तस्करी के लिए कहीं भेजने वाले हैं। इस सूचना पर मैं थानाध्यक्ष अन्य हमराही कर्मचारी व उपनिरीक्षकगणों को मकसद बताते हुए घघसरा बाजार तिराहे से प्रस्थान कर रिठुआखोर होते हुए चिगौना बगीचे के पास आया। हम पुलिस वाले बगीचे को चारो से घेर घार कर एक बारगी जानवरों के पास पहुंचने का प्रयास कर रहे थे कि झाड़ियों के अन्दर से ही हम पुलिस वालों पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया कि थोड़ी देर हम लोग रुके जब हम पुलिस वाले हिकमत अमली से धीरे कबारगी अलग झाड़ियों में गोवंश बंधे हुये है और पास आकर मौके पर ही हम पुलिस वालो के द्वारा ए – धीरे आगे बड़े तो देखा कि अलग – ही चार व्यक्तियों को पकड़ लिया गया जबकि व्यक्ति झाड़ियों में छुपछुपाकर भागने में सफल रहे। 6पकड़े गये व्यक्तियों का नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी लिया गया तो पहले ने अपना नाम 1.सितारे आलम शेख उर्फ खुरशीद पुत्र अब्दुल जहीद शेख निवासी महाराबारी थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर जिसके जामातलाशी से उसके पहने हुये पैन्ट के बाये फेट से एक अदद देशी तमन्चा बोर बरामद हुआ तथा दाहिने पाकेट से एक अदद जिन्दा कारतूस 0.315 बोर बरामद हुआ 0.315। दूसरे ने अपना नाम 2. काली चरन सिंह पुत्र गौरीशंकर सिंह निवासी चिगौना थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर बताया पास से रुपया बरामद हुआ तथा तीसरे ने अपना नाम 350 3. अवधेश यादव पुत्र स्वहंसराज निवासी महाराबारी थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर चौथे ने अपना 0 नाम 4. अनिल प्रजापति पुत्र राधेश्याम निवासी महाराबारी थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर बताया। पकड़े गये व्यक्तियों से मौके से भागे हुये व्यक्तियों के बारे में कड़ाई से पूछताछ किया गया तो बताये कि मौके पर हम सभी .1 लोग भाग गये। जिनका नाम पता 6 लोग थे जिनमें से 10बबुन्ने पुत्र सिकन्दर निवासी महम्मदपुर थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर .2जितेन्द्र पुत्र विभूति .3सिकन्दर पुत्र विभूति .4सत्येन्द्र पुत्र विभूति .5मन्नू उर्फ बिदुर पुत्र पन्नेलाल निगण 0 .6 छोटकी रेतवहिया जंगल धूसड थाना पिपराइज जनपद गोरखपुर वरामलखन पुत्र अर्जुन निवासी कठउर थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर है। मौके पर 8 अदद गोवंश बंधे हुए बरामद हुए। जिनके सम्बन्ध में पकड़े गये व्यक्तियों से पूछा गया तो सभी ने बताया कि साहब इन पशुओ को हम लोग आज रात को गाडी मगाकर बिहार भेजते है जहां ये पशुओ को काट कर मांस विक्री किया जाता है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर क्रमश 1. मु0अ0सं0 233/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट , 2. मु0अ0सं0 234/2021 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 तथा मु0अ0सं0 235/2021 धारा 307 भादवि पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त:-

- 1.सितारे आलम शेख उर्फ खुरशीद पुत्र अब्दुल जहीद शेख निवासी महाराबारी थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर उम्र करीब 35 वर्ष
2. काली चरन सिंह पुत्र गौरीशंकर सिंह निवासी चिगौना थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर उम्र करीब 40 वर्ष
3. अवधेश यादव पुत्र स्व हंसराज निवासी महाराबारी थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर 0उम्र करीब 23 वर्ष
4. अनिल प्रजापति पुत्र राधेश्याम निवासी महाराबारी थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर उम्र करीब 20 वर्ष

बरामदगी:-

1. एक अदद देशी तमंचा 0.315 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस तथा एक अदद खोखा कारतूस 0.315 बोर
2. आठ अदद गोवंश
3. रुपया 350 नगद

गिरफ्तारी का स्थान व समय

वहद ग्राम चिकौना स्थित बगीचा दिनांक 12.07.2021 समय 14.25 बजे

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1.थानाध्यक्ष राज प्रकाश सिंह थाना सहजनवा गोरखपुर
- 2.उ0नि0 रणजीत तिवारी थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर
- 3.उ0नि0 रामानुज सिंह यादव थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर
4. आरक्षी नितेश सिंह थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर
5. आरक्षी आशुतोष पाण्डेय थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर
6. आरक्षी जीतेन्द्र कुमार थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर
7. आरक्षी राजेश कुमार, थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर
- 8 आरक्षी राकेश सिंह , थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर
9. आरक्षी अशोक यादव थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर